

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2735]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 10, 2013/अग्रहायण 19, 1935

No. 2735]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 10, 2013/AGRAHAYANA 19, 1935

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3609(अ).—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध स्कीम, 1948 के पैरा 4 के साथ पठित कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2596(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2009 तथा का.आ. 411(अ), तारीख 19 फरवरी, 2013 को, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए न्यासी बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति करती है, अर्थात् :—

1. सचिव,

—अध्यक्ष

भारत सरकार,

कोयला मंत्रालय,

नई दिल्ली-110 001 ।

2. आयुक्त

—पदेन सदस्य

कोयला खान भविष्य निधि संगठन,

धनबाद, (झारखंड-826014) ।

धारा 3क की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त ।

3. विशेष सचिव या अपर सचिव या —सदस्य
संयुक्त सचिव (को.खा.भ.नि. मामलों के प्रभारी),
भारत सरकार, कोयला मंत्रालय,
नई दिल्ली-110 001 ।
4. संयुक्त सचिव-सह-वित्तीय सलाहकार, —सदस्य
कोयला मंत्रालय,
नई दिल्ली-110 001 ।
5. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसका —सदस्य
प्रतिनिधि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली-110 066 ।
धारा 3क की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन नियुक्त ।
6. सचिव, —सदस्य
खनिज संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़ सरकार,
कमरा संख्या एस-1/13, कैपिटल कॉम्प्लेक्स,
महानदी भवन, नया रायपुर-492002,
जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) ।
7. विशेष सचिव, —सदस्य
आंध्र प्रदेश सरकार, ऊर्जा विभाग,
कमरा संख्या 360 ए, 'डी' ब्लॉक, द्वितीय तल,
आ.प्र. सचिवालय,
हैदराबाद-500 022 (आंध्र प्रदेश) ।
8. आयुक्त-सह-सचिव, —सदस्य
श्रम और रोजगार विभाग,
ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर,
ओडिशा-751 001 ।
धारा 3क की उप-धारा (1) के खंड (ङ) के अधीन नियुक्त ।
9. निदेशक (कार्मिक और औद्योगिक संबंध), —सदस्य
कोल इंडिया लिमिटेड,
10, नेताजी सुभाष रोड,
कोलकाता- 700 001 (पश्चिम बंगाल) ।
10. निदेशक (कार्मिक और कल्याण), —सदस्य
सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लिमिटेड,

- कोठागुडम, जिला खम्माम,
आंध्र प्रदेश- 507101 ।
11. निदेशक (कार्मिक), —सदस्य
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड,
डाकघर जागृति विहार, बुर्ला,
जिला सम्बलपुर-768020 (ओडिशा) ।
12. निदेशक (कार्मिक), —सदस्य
सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लिमिटेड,
कोठागुडम, जिला खम्माम,
आंध्र प्रदेश- 507 101 ।
13. निदेशक (कार्मिक), —सदस्य
सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लिमिटेड,
कोठागुडम, जिला खम्माम,
आंध्र प्रदेश- 507 101 ।
- धारा 3क की उप-धारा (1) के खंड (च) के अधीन नियुक्त ।**
14. श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, —सदस्य
महा सचिव,
हिंद खदान मजदूर फेडरेशन,
क्वार्टर संख्या सी/8, सेक्शन 6,
राऊरकेला-769002,
जिला - सुन्दरगढ़ (ओडिशा) ।
15. श्री पी.के.राय, —सदस्य
अध्यक्ष, साउथ ईस्टर्न कोयला मजदूर कांग्रेस,
स्थान और डाक पतपेर दाफाई, नार्थ झारखंड कोलियरी,
जिला - कोरिया- 497446 (छत्तीसगढ़) ।
16. श्री दिनेश एम. रावल, —सदस्य
वित्त सचिव,
अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ,
303, सत्यम अपार्टमेंट, वर्धा रोड, धनटोली,
नागपुर- 440012 (महाराष्ट्र) ।
17. श्री मोहन झा, —सदस्य
महासचिव,
संयुक्त खदान मजदूर संघ,
डब्ल्यूसीएल कोल एस्टेट, सिविल लाइन्स,
नागपुर-440001 (महाराष्ट्र) ।

18. श्री डी.डी. रामनंदन, —सदस्य
जेष्ठ वैयक्तिक सहायक,
द्वारा निदेशक (कार्मिक),
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड,
दरभंगा हाउस, रांची-834001 ।
19. श्री रामकिशोर त्रिपाठी, —सदस्य
सुपुत्र स्वर्गीय श्री राम नरेश त्रिपाठी,
'त्रयम्बक' 128/239, के. ब्लॉक,
किदवई नगर, कानपुर-208011,
उत्तर प्रदेश ।

टिप्पण :—अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड और निदेशक/उप सचिव (पीआरआईडब्ल्यू-III) न्यासी बोर्ड की बैठकों के स्थायी आमंत्रिती होंगे ।

[फा. सं.20/210/3/2012-पीआरआईडब्ल्यू-III]

विवेक भारद्वाज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2013

S.O. 3609(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), read with paragraph 4 of the Coal Mines Provident Fund Scheme, 1948 and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 2596 (E), dated the 13th October, 2009 and S.O. 411 (E), dated the 19th February, 2013 published in Part II, Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the following persons to the Board of Trustees for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

1. Secretary —Chairman
Government of India,
Ministry of Coal,
New Delhi-110001.
2. Commissioner, —Member-ex-officio
Coal Mines Provident Fund
Organisation, Dhanbad
(Jharkhand-826014).
Appointed under clause (c) of sub-section (1) of Section 3A.
3. Special Secretary or Additional —Member
Secretary or Joint Secretary
(In-charge of CMPFO affairs),
to the Government of India,
Ministry of Coal,
New Delhi-110001.

- | | | |
|---|--|---------|
| 4. | Joint Secretary-cum-Financial Adviser,
Ministry of Coal,
New Delhi-110001. | —Member |
| 5. | Central Provident Fund Commissioner
or his representative,
Employees's Provident Fund
Organization, Bhavishya Nidhi Bhavan,
14, Bhikaji Cama Place,
New Delhi-110066. | —Member |
| Appointed under clause (d) of sub-section (1) of Section 3A. | | |
| 6 | Secretary,
Mineral Resources Deptt.
Government of Chhattisgarh,
Room No. S-1/13, Capital Complex,
Mahanadi Bhawan, Naya Raipur-492002
District Raipur (Chhattisgarh) | —Member |
| 7. | Special Secretary to Government of Andhra Pradesh,
Energy Department,
Room No. 360A, 'D' Block, 2 nd Floor,
A.P Secretariat, Hyderabad-500022
(Andhra Pradesh). | —Member |
| 8. | Commissioner-cum-Secretary,
Labour and ESI Department,
Government of Odisha,
Bhubaneswar-751001 (Odisha). | —Member |
| Appointed under clause (e) of sub-section (1) of Section 3A. | | |
| 9. | Director (Personnel and
Industrial Relation),
Coal India Limited,
10, Netaji Subhas Road,
Kolkata-700001 (West Bengal). | —Member |
| 10. | Director (Personnel Admn. & Welfare),
Singareni Collieries
Company Limited, Kothagudem,
Khammam District-507101,
(Andhra Pradesh). | —Member |
| 11. | Director (Personnel),
Mahanadi Coalfield Limited,
P.O. Jagriti Vihar, Burla,
District- Sambhalpur-768020 (Odisha). | —Member |
| 12. | Director (Personnel),
South Eastern Coalfields Ltd,
Seepat Road, Bilaspur-595006.
(Chhattishgarh). | —Member |
| 13. | Director (Personnel),
Central Coalfield Limited,
Darbhanga House,
Ranchi-834001 (Jharkhand). | —Member |

Appointed under clause (f) of sub-section (1) of Section 3A.

- | | | |
|-----|--|---------|
| 14. | Shri Rajendra Prasad Singha
General Secretary,
Hind Khadan Mazdoor Federation,
Qrs No. C/8, Section 6,
Rourkela-769002,
Distt. Sundergarh (Odisha). | —Member |
| 15. | Shri P.K. Rai,
President, South Eastern Koyla
Mazdoor Congress, At & Post
Patper Dafai, North Jharkhand Colliery,
Dist-Koria-497446
(Chhattisgarh). | —Member |
| 16. | Shri Dinesh M. Rawal
Finance Secretary,
Akhil Bhartiya Khadan Mazdoor Sangh,
303, Satyam Aptt.,
Wordha Road, Dhantoli,
Nagpur-440012 | —Member |
| 17. | Shri Mohan Jha,
General Secretary,
Samyukta Khadan Mazdoor Sangh,
WCL Coal Estate, Civil Lines,
Nagpur-440001 (Maharashtra). | —Member |
| 18. | Shri D.D. Ramanandan,
Senior Personal Assistant,
C/O Director (Personnel),
Central Coalfields Ltd.,
Dharbhanga House, Ranchi-834001. | —Member |
| 19. | Shri Ram Kishore Tripathi,
S/o Late Sri Ram Naresh Tripathi,
'Trayambak' 128/239 K Block,
Kidwai Nagar, Kanpur, U.P. -208011 | —Member |

Note:—Chairman, Coal India Ltd., and Director/Deputy Secretary (PRIW-III) will be permanent Invitees to the meetings of Board of Trustees.

[F. No. 20/210/3/2012-PRIW-III]

VIVEK BHARDWAJ, Jt. Secy.